

**\*प्रेस नोट\***

**\*दिनांक 08.01.2023\***

**\*थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा कर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी किये हुए 04 स्मार्टफोन बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगें के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री राजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अमरोहा के नेतृत्व एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री विजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा इन्स्टा कार्ट गोदाम मौ0 लकडा से मोबाईल फोन चोरी करने की घटना का खुलासा कर अभियुक्त/डिलिवरी बॉय गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 04 स्मार्टफोन बरामद हुए ।

**\*संक्षिप्त विवरण\*:-**आज दिनांक 08.01.2023 को थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान सूचना पर धनौरा रोड से अभियुक्त अमित शर्मा पुत्र गिरीश कुमार निवासी मौ0 चौक थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 04 स्मार्टफोन (आईफोन, रियलमी, रेडमी कम्पनी) बरामद हुए ।

पुछताछ पर अभियुक्त अमित शर्मा द्वारा बताया कि वह इन्स्टा कार्ट में डिलिवरी का काम करता है और बरामद हुये 04 स्मार्टफोन वही इन्स्टा कार्ट गोदाम मौ0 लकडा से चुराये थे । उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी अरविन्द कुमार पुत्र हरि सिंह निवासी लकडा चौराहा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा द्वारा दी गयी तहरीर पर थाना अमरोहा नगर पर मु0अ0सं0 11/2023 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है । थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



**\*गिरफ्तार अभियुक्त\*:-**

1. अमित शर्मा पुत्र गिरीश कुमार निवासी मौ0 चौक थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

**\*बरामदगी\*:-**

1. 04 स्मार्टफोन (आईफोन, रियलमी, रेडमी कम्पनी)

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*:-**

1. उ0नि0 अतुल कुमार थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
2. का0 811 सूर्या कुमार थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।

**\*PRO CELL AMROHA\***